



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 419]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 1983/भाद्र 30, 1905

No. 419]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 1983/BHADRA 30, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1983

का०आ० 677 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 541 (अ)/18कक/आई डी आर ए/79, तारीख 22 सितम्बर, 1979 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) सचिव, रुग्ण और बन्द उद्योग विभाग जिसे अब सचिव, औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग कहा जाता है, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता को मैसर्स नेशनल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०, हावड़ा नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 21 सितम्बर, 1982 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था।

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (उद्योग विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 682(अ)/18कक/आई

डी आर ए/82, तारीख 21 सितम्बर, 1982 द्वारा उक्त आदेश की अवधि को 21 सितम्बर, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया था;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 31 दिसम्बर, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 31 दिसम्बर 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा०सं० 4(12)/76 सी०यू०एस०]  
ए०पी० सरवन, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF INDUSTRY****(Department of Industrial Development)****ORDER**

New Delhi, the 21st September, 1983

S.O. 677(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 541(E)|18AA|IDRA|79; dated the 22nd September, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the Secretary, Closed and Sick Industries Department, now known as Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal, Calcutta, to take over the management of the whole of the Industrial undertaking known as Messrs National Iron and Steel Company Limited, Howrah, for a period of three years upto and inclusive of the 21st day of September, 1982;

And, whereas, by the Order of the Government of India (Department of Industrial Development) No. S.O. 682(E)|18AA|IDRA|82 dated the 21st September 1982, the duration of the said Order was extended for a period of one year upto and inclusive of the 21st September, 1983;

And, whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st December, 1983;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st December, 1983.

[F. N.. 4(12)/76-CUS]  
A.P. SARWAN, Jt. Secy.